

Rudra Koyal.

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी
अनुमति-पत्र

सं. 38 / नं 0 अ 0 वि 0

दिनांक 2-6-16


गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री आज्ञानु कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल
पिता/पति का नाम श्री आराजी संख्या 291/1, 292 मौजा शिवदासपुर
वार्ड 5 शाहीपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के विहित भवन चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



नगर अभियंता (मन 1)

विकास क्लोजियर, वाराणसी

वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़, झोंप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो गान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर दिनों के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्त :-

1. स्थल पर नियमानुसार 15 पेड़ लगाना होगा।
2. शपथकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।
3. बेसमेन्ट बनाते समय अगर आस-पास की सम्पत्तियों को कोई नुकसान पहुँचती है तो समस्त जिम्मेदारी शपथकर्ता की होगी।
4. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान मानक के अनुसार स्थल पर कराना होगा।
5. स्वामित्व या रास्ते के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो शपथकर्ता का मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शपथकर्ता की होगी।
6. भविष्य में यदि विभाग द्वारा कोई देयता बनती है तो शपथकर्ता द्वारा देय होगी।
7. पक्ष को स्थल पर सोलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
8. पक्ष को नियमानुसार दिये गये शपथ पत्र दिनांक 10.05.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी।
9. स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पक्ष/आवेदक को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश भाग का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
10. - आम विभागा में सेस शुल्क जमा कर रसीद को दस्तावेजों में प्राथमिकता से उपलब्ध कराना होगा।

PKR
28/5/16
निष्ठा से

Raj
21/6/16
AE

नगर अभियन्ता (भवन)
विक्रम प्रसाद, वाराणसी।



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

मेसर्स रुद्रा रियल टेक प्रा० लि०,
बजरिये श्री आनन्द अग्रवाल पुत्र स्व० अशोक कुमार अग्रवाल,
आराजी सं०-291/1 व 292, मौजा-शिवपुर, परगना-देहात अमानत,
वार्ड-दशाश्वमेध, वाराणसी।

पत्रांक:- 33/14/गु०हा०/कम्पा०/विन्यास/वि०प्रा०/ 2018-19 दिनांक:-


विषय:- आराजी सं०-291/1 व 292, मौजा-शिवपुर, परगना-देहात अमानत,
वार्ड-दशाश्वमेध, वाराणसी पर प्रस्तुत स्वीकृत शमन मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2016 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। तदक्रम में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र पूर्व में उल्लिखित शर्तों के साथ स्वीकृत कर दिया गया है; जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक- एक प्रति स्वीकृत शमन मानचित्र।

भवदीय,


22/05/18
प्रभारी अधिकारी मानचित्र।